



जनसम्पर्क कार्यालय: एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

## समाचार

### मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को मिला सीबीआईपी बेस्ट परफार्मिंग पावर ट्रांसमिशन यूटीलिटी पुरस्कार



**जबलपुर, 4 जनवरी।** सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एण्ड पावर (सीबीआईपी) नई दिल्ली, सन् 1927 से जल, ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्था को पुरस्कृत करती आई है। बोर्ड द्वारा गठित उच्च स्तरीय जूरी ने सीबीआईपी पुरस्कार वर्ष 2018 हेतु मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी को बेस्ट परफार्मिंग पावर ट्रांसमिशन यूटीलिटी के पुरस्कार हेतु चयन किया है। केन्द्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री डा. सत्यपाल सिंह ने पावर ट्रांसमिशन प्रबंध संचालक श्री पी. ए. आर. बेन्डे एवं मुख्य अभियंता श्री सुनील तिवारी को पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी को विद्युत पारेषण में कम्पनी द्वारा तकनीकी क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयोग एवं नवीनतम तकनीकों को उपयोग में लाने हेतु तथा राष्ट्र के प्रति लगातार विद्युत पारेषण के क्षेत्र में नये मापदण्ड स्थापित करने हेतु प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय जल संसाधन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने की। समारोह में महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री श्री गिरीश महाजन एवं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी ने हरित एवं नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पश्चात् पारेषण की त्वरित व्यवस्था के साथ ही लाॅग एवं शार्ट टर्म ओपन एक्सेस प्रदान करने के क्षेत्र में भी अनुकरणीय कार्य किया है। कम्पनी द्वारा गुजरखेड़ी 250 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना में सहयोग के साथ ही रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना हेतु परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही हैं। कम्पनी द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन पश्चात् सीबीआईपी द्वारा “बेस्ट परफार्मिंग पावर ट्रांसमिशन यूटीलिटी” वर्ष 2018 का पुरस्कार 3 जनवरी 2018 को एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

**समाचार क्रमांक: 10/2018**

(राकेश पाठक)  
वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी

